



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 10.09.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना समाधान दिवस के अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा सुनी गयी फरियादियों की समस्यायें, प्राप्त हुयी शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण विधिक निस्तारण के लिये सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश।

थाना समाधान दिवस के अवसर पर आज दिनांक 10.09.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री आर0 के0 गौतम की अध्यक्षता में थाना कोतवाली महोबा में समाधान दिवस का आयोजन किया गया, इस दौरान फरियादियों से उनकी समस्याओं को मौके पर सुना गया तथा वहां मौजूद संबंधित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों का शत प्रतिशत गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि राजस्व और पुलिस विभाग से सम्बन्धित शिकायतों का निस्तारण आपसी सामंजस्य से सुनिश्चित किया जाये, सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण तथा शिकायतकर्ता की संतुष्टि के आधार पर किया जाये, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही न की जाए जिससे आमजनमानस को बिना वजह परेशान होना पड़े।

तत्पश्चात अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा वहां मौजूद शिकायत रजिस्टर का निरीक्षण करते हुए निस्तारित हो चुकी शिकायतों के संबंध में फीडबैक भी लिया गया।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस व प्रशासन के राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल / थाना पर थाना समाधान दिवस आयोजित कर जनता की समस्याओं को सुना गया तथा प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच करते हुए उनके त्वरित व विधिक निस्तारण हेतु राजस्व और पुलिस विभाग की टीम बनाकर मौके पर जाकर शिकायतों का शत प्रतिशत निष्पक्ष निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

थाना समाधान दिवस के अवसर पर द्वारा लोगों की समस्याओं को सुना गया। इस मौके पर सभी थानों में कुल 46 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से 39 शिकायतें राजस्व विभाग से व 07 शिकायतें पुलिस विभाग से संबंधित थी, कुल प्राप्त शिकायतों में 04 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 10.09.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



साइबर सेल महोबा द्वारा ऑनलाइन ठगी के शिकार पीड़ितों के कुल 36,512/- रुपये खाते में वापस कराये गये-

आये दिन साइबर अपराधियों द्वारा आम जनता को भ्रमित कर उनसे उनके बैंक खाते एवं क्रेडिट कार्ड आदि से जुड़ी गोपनीय जानकारी अर्जित कर यूपीआई व अन्य के माध्यम से साइबर फ्रॉड/धोखाधड़ी की जा रही है।

उक्त के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम (नोडल जनपदीय साइबर सेल) के निकट पर्यवेक्षण में व प्रभारी साइबर सेल उ०नि० राहुल परमार के नेतृत्व में साइबर अपराध की रोकथाम हेतु जनपदीय साइबर सेल टीम महोबा द्वारा निरन्तर अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह को आवेदक क्रमशः 1.विपिन उर्फ भगवानदास निवासी कबरई 2.विकास ताम्रकार निवासी पनवाड़ी 3.रंजना वाजपेयी निवासी खरेला 4.शिवम सोनी निवासी कुलपहाड़ ने अपने साथ हुयी धोखाधड़ी के संदर्भ में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके क्रम में साइबर सेल द्वारा प्रार्थना पत्रों की जाँच की गयी, जाँच के दौरान पाया गया कि अज्ञात साइबर अपराधी द्वारा आवेदकों के साथ साइबर फ्रॉड के माध्यम से क्रमशः 7650/- रुपये, 3998/-रुपये, 5064/-रुपये व 19,800/- रुपये की ठगी कर ली गयी थी। आवेदकों के साथ हुयी साइबर ठगी में खाते से निकाली गयी धनराशि को वापस कराने हेतु त्वरित कार्यवाही करते हुये पेमेण्ट गेटवे/सम्बन्धित बैंक के साथ समन्वय स्थापित कर पीड़ितों की सम्पूर्ण धनराशि 36,512/- रुपये वापस करायी गयी, पीड़ितों द्वारा अपनी धनराशि प्राप्त होने पर खुशी जाहिर की गयी।

धनराशि वापस कराने वाली साइबर सेल टीम:-

- 1.उ०नि० राहुल परमार प्रभारी साइबर सेल महोबा
- 2.का० शैलेन्द्र प्रताप सिंह
- 3.का० सत्यम सिंह जादौन
- 4.का० सुरजीत कुमार





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 10.09.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना खन्ना पुलिस टीम ने 03 नफर वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस टीम द्वारा चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन के क्रम में दिनांक 10.09.2022 को प्रभारी निरीक्षक राधेश्याम वर्मा थाना खन्ना की देखरेख में, पुलिस टीम को उस समय एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। निरीक्षक श्री संजय शर्मा अपराध शाखा जनपद महोबा द्वारा थाना खन्ना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 131/19 धारा 419/420/467/468/471 आईपीसी के वांछित अभियुक्तगण 1. नत्थू कोरी पुत्र स्व0 छोटा उम्र 60 वर्ष 2. घसीटा रैदास पुत्र स्व0 बिहारी उम्र 70 वर्ष 3. बृजेन्द्र यादव पुत्र स्व0 गोरेलाल उम्र 46 वर्ष को ग्राम ग्योंड़ी से हिरासत पुलिस में लेकर थाना हाजा पर आवश्यक कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक श्री संजय शर्मा अपराध शाखा जनपद महोबा
2. उ0नि0 सत्येन्द्र सिंह चौकी प्रभारी ग्योंड़ी थाना खन्ना महोबा
3. का0 फतेबहादुर सिंह चौकी ग्योंड़ी थाना खन्ना महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. नत्थू कोरी पुत्र स्व0 छोटा ग्राम ग्योंड़ी थाना खन्ना जनपद महोबा उम्र 60 वर्ष
2. घसीटा रैदास पुत्र स्व0 बिहारी ग्राम ग्योंड़ी थाना खन्ना जनपद महोबा उम्र 70 वर्ष
3. बृजेन्द्र यादव पुत्र स्व0 गोरेलाल ग्राम ग्योंड़ी थाना खन्ना जनपद महोबा उम्र 46





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 10.09.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा महिला थाना महोबा का किया गया अर्द्धवार्षिक निरीक्षण, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश..

आज दिनांक 10.09.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री आर0के0 गौतम द्वारा महिला थाना महोबा का औचक निरीक्षण किया गया इस दौरान सम्पूर्ण थाना परिसर का भ्रमण कर थाना कार्यालय, बैरक, कम्प्यूटर कक्ष आदि का निरीक्षण किया गया, थाना कार्यालय में अपराध रजिस्टर व अन्य रजिस्ट्रों/अभिलेखों का निरीक्षण किया गया तथा उक्त रजिस्ट्रों/अभिलेखों का व्यवस्थित रख-रखाव सुनिश्चित करने व सम्पूर्ण थाने में साफ-सफाई की व्यवस्था बेहतर किये जाने के आवश्यक निर्देश दिए गए।

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा महिला हेल्प डेस्क के रजिस्टर व सीसीटीएनएस कक्ष का निरीक्षण किया गया, जिसमें महिला पुलिस कर्मियों को फरियादियों से अच्छे व्यवहार करने व उनकी समस्याओं को सुनकर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए गए साथ ही सीसीटीएनएस कर्मियों से सभी अभिलेखों को कम्प्यूटर में अंकन करने के निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में थानास्थानीय पर स्थापित साइबर हेल्प डेस्क का निरीक्षण किया गया तथा साइबर अपराध सम्बन्धी मामलो को समय से दर्ज कर त्वरित आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये।

इस दौरान महिला थाना प्रभारी उ0नि0 शिल्पी शुक्ला सहित महिला थाना महोबा के अन्य पुलिस कर्मचारी मौजूद रहे।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 10.09.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना कबरई पुलिस टीम ने पाक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस टीम द्वारा चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन के क्रम में दिनांक 10.09.2022 को प्रभारी निरीक्षक कबरई श्री विनोद कुमार द्वारा गठित टीम उ0नि0 यशवंत सिंह द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 276/2022 धारा 354/506 भादवि व 8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त अरविन्द सिंह पुत्र राम सिंह उम्र 39 वर्ष को छंगा तिराहा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्याय के समक्ष पेशी उपरान्त जिला कारागार महोबा भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 उ0नि0 यशवंत सिंह
2. का0 सुनील कुमार दुबे

गिरफ्तार अभियुक्त-

अरविन्द सिंह पुत्र राम सिंह उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम सायर थाना बिंवार जनपद हमीरपुर





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 10.09.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



अपर पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस बल द्वारा पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा ।

गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई ।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए । यातायात नियमों के उल्लंघन पर ई-चालान किये गये ।



आज दिनांक 10.09.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा आर0के0 गौतम के निर्देशन में जनपदीय पुलिस बल द्वारा संवेदनशील स्थानों एवं सार्वजनिक स्थानों पर पैदल गस्त कर अवैध अतिक्रमण को हटाने के संबंध में सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये तथा अफवाहों पर ध्यान न देने हेतु अपील की गयी । स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी तथा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन ढाबा आदि जगहों पर पैदल





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 10.09.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



महोबा पुलिस